



OL/SE/532/September 2023-24

September 03, 2023

BSE Limited	National Stock Exchange of India Limited						
Phiroze Jeejeebhoy Towers Limited	Exchange Plaza, Bandra Kurla Complex,						
Dalal Street, Mumbai 400 001	Bandra (E) Mumbai 400 051						
Security Code: 532880	Symbol: OMAXE						

<u>Subject: Intimation of Newspaper Advertisement of Notice to Shareholders for Updating/</u> Registration of Email Address

Dear Sir/Madam,

In connection with the upcoming Annual General Meeting to be conducted by the Company, please find enclosed herewith copies of the newspaper advertisement of Notice to Shareholders for Updating/ Registration of Email Address, published in Financial Express (English language) and Jansatta (Hindi language) dated September 03, 2023, in compliance with the provisions of Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

The aforesaid Newspaper Publications are also available on Company's website i.e. www.omaxe.com.

You are requested to take the same on your records.

For Omaxe Limited

Vikas Khandelwal Company Secretary

Encl: As above.

FE SUNDAY

E-AUCTION SALE NOTICE FOR SALE OF

9:30 a.m. to 4:00 p.m.

Retail Lending and Payment Group (Local Office/Branch): Axis louse, Tower-2, 2nd Floor, I-14, Sector-128, Noida Expressway, Jaypee Greens Wishtown, Noida-201301, U.P. Axis Bank Ltd., 3rd Floor, Gigaplex, NPC - 1, TTC Industrial Area, Mugalsan Road, Airoli,

NOTICE FOR SALE OF Navi Mumbai – 400 708 Registered Office: "Trishul", 3rd Floor Opp. IMMOVABLE PROPERTY Samartheshwar Temple Law Garden, Ellisbridge Ahmedabad – 380006. E-Auction Sale Notice for Sale of Immovable Assets under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002 read

Not Known

with proviso to Rule 8(6) of the Security Interest (Enforcement) Rule, 2002. Notice is hereby given to the public in general and in particular to the Borrower(s) and Guarantor(s that the below described immovable property is mortgaged/charged to the secured creditor, the physical possession of which has been taken by the Authorised Officer of Secured Creditor will be sold on "As is where is", "As is what is" and "Whatever there is" on 21/09/2023 for recovery of 2,74,17,110.57/- (Rupees Two Crore Seventy Four Lakh Seventeen Thousand One Hundred Ter and Fifty Seven Paisa Only)dues as on 31.08.2021 with future interest and costs due to the secured creditor from 1.M/S Dream Panels Pvt. Ltd., 2. Mr. Sandeep Goyal (Since Deceased) Through His LRS (A) Ms. Savithri Goel (Mother), (B) Ruchi Goyal (Wife), (C) Minnor Son / Daughter of late Mr. Sandeep Goyal through their Mother 3. Mrs. Ruchi Goyalin Loan Nos. 918030017513459, 917020034679576, 920060051314438. Please refer the appended auction schedule for necessary details:-Known Encumbrances

(If Any) Reserve Price (In Rs.)	(196,1016-01)					
Reserve Price (In Rs.)	Rs. 3,25,00,000/- (Rs. Three Crore Twenty Five Lakh Only)					
Earnest Money Deposit (In Rs.)	Rs.32,50,000/- (Rs. Thirty Two Lakh Fifty Thousand Only through DD/PO in favor of 'Axis bank itd.' payable at Delhi.					
Bid Incremental Amount	Rs. 10,000/- (Rs. Ten Thousand only)					
7 10 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2						

Last Date, Time And Venue | Till 20th SEP., 2023 latest by 05:00 P.M. Axis House, Tower-2, For Submission Of Bids / 2nd Floor, I-14, Sector-128, Noida Expressway, Jaypee Greens

Wishtown, Noida-201301, U.P. addressed to Mr. Anuj Gupta Tender With EMD Date, Time, And Venue For On 21th SEP., 2023, between 11,00 A.M and 12,00 Noon, with unlimited extensions of 5 minutes each at web portal Public E-auction https://www.bankeauctions.com e-auction tender documents containing e-auction bid form, declaration etc., are available in the website of the Service Provider as mentioned

SCHEDULE - DESCRIPTION OF PROPERTY Entire Third Floor of the property bearing No. 127, in the block E Situated at Masjid Moth Greater Kallash-III, New Delhi, comprising of Three Bedrooms with attached Bathrooms, Drawing/Dining Room, Kitchen, Front and Rear Balconies with One Car Parking Space with separate gate in the Still on the left side of the building while facing the building and Space for One Utility with common W.C. & Bath in the Still AND ALSO the Entire Terrace rights over and above the Entire Third Floor of the property (with right to construct and own any area/floors on the said Terrace and subsequent Terraces thereupon and there above upto the limits of the sky as and when permitted by MCD), along with proportionate, undivided, indivisible and impartible ownership rights in the freehold land underneath measuring 180 square meters, bearing No. 127, in Block E, situated at Masjid Moth, Greater Kallasi Part-III, New Delhi with all the rights, title and interest, easements, privileges and appurtenances thereto with super structure, electricity and water connections, fixtures and firings etc. with all rights common entrances, passages, staircase, lift and other common facilities and amenities: Boundaries of the Property as follows -: East-As per Sale Deed West - As per Sale Deed North - As per Sale Deed South - As per Sale Deed For detailed terms and conditions of the sale, please refer to the link provided in the secured creditor's website i.e. https://www.axisbank.com/auction-retail and the Bank's approved service provider M/S C1 India Private Limited at their web portal https://www.bankeauctions.com The auction will be conducted online through the Bank's approved service provider M/s.C1 India Private Limited at their web portal https://www.bankeauctions.com. For any other assistance, the intending bidders may contact Mr. Anuj Gupta, Mobile. No. +91-9911882040 Authorized officer of the Bank during office hours from

Yours faithfully, Sd/- Authorized Officer, Date: 03-09-2023, Place: Noida For Axis Bank Ltd.

CHAMAN LAL SETIA EXPORTS LTD. Regd. Off: P.O CENTRAL JAIL, MIRANKOT ROAD, AMRITSAR-143002, PUNJAB

CIN: L51909PB1994PLC015083 Tel: 0183-2592708 Fax: 0183290453 E-mail: clsetia@rediffmail.com, Website: www.clsel.in NOTICE OF 29" ANNUAL GENERAL MEETING OF

CHAMAN LAL SETIA EXPORTS LTD. TO BE HELD THROUGH

VC (VIDEO CONFERENCING)/ OAVM (OTHER AUDIO -VIDEO MEANS)

Notice is hereby given that the 29"Annual General Meeting (AGM) of the Members of Chaman Lal Setia Exports Ltd. ("the Company") is scheduled to be held on Thursday 28th September, 2023 at 04:30 p.m. through Video Conferencing (VC)/Other Audio-Visual Means (OAVM) in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 read with General Circular Issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA). Government of India and Securities and exchange Board of India (SEBI) permitting the holding of AGM through VC or OAVM, without the physical

In compliance with the above circulars, electronic copies of the Notice of the AGM alongwith the 29"Annual Report for the Financial year 2022-2023 will be sent to all the shareholders whose email addresses are registered/available with the Company/Depository Participants.

presence of the Members at a common venue, to transact the Ordinary

and Special businesses as set out in the Notice.

However the Shareholders of the Company may request physical copy of the Notice and 29" Annual Report from the Company by sending a request at clsetia@rediffmail.com in case they wish to obtain the same. Shareholders holding shares in dematerialised mode are requested to register their email addresses, mobile numbers, bank account details for receipt of dividend and/ or other details, with their relevant depositories through their depository participants.

Shareholders holding shares in physical mode are, requested to furnish their email addresses, mobile numbers, bank account details for receipt of dividend and/ or other details in Form ISR-1 and other relevant forms prescribed by SEBI, or contact with the Company's Registrars and Share Transfer Agent, Mr. Bhawendra Jha, Official Incharge of RTA M/S. Beetal Financial & Computer Services Pvt. Ltd. IIIrd Floor, 99 Madangir (Near Dada Harsukhdass Mandigir), New Delhi (Phone: 011-299612181-283 or email id :- beetalrta@gmail.com)

The Notice of the AGM and the 29th Annual Report will also be available on the Company's website www.clsel.inand on the websites of the stock exchanges (NSE & BSE) i.e. www.bseindia.com and www.nseindia.com and on the website of the CDSL (agency for providing the Remote e-Voting and e-voting during AGM) at www.evotingindia.com. In case you have not registered your e-mail address and/or not updated your bank account mandate for receipt of dividend.

Shareholders will have an opportunity to cast their vote remotely on the businesses as set out in the Notice of AGM through electronic voting system The manner of voting remotely for shareholders holding shares in dematerialized mode, physical mode and for shareholders who have not registered their email addresses will be available in the Notice to the shareholders. The details will also be made available on the website of the Company. Shareholders are requested to visit www.clsel.in for such

The Notice of 29" AGM will be sent to the shareholders in accordance with the applicable laws on their email addresses in due course. Pursuant to the amendments introduced in the Income Tax Act, 1961 ('the

IT Act') vide Finance Act, 2020, w.e.f. April 1, 2020, dividend declared. paid or distributed by a Company on or after April 1, 2020, is taxable in the hands of the shareholders. The Company shall, therefore, be required to deduct TDS/ WHT at the time of payment of dividend at the applicable tax rates. The rates of TDS/ WHT would depend upon the category and residential status of the shareholder. Members are requested to complete and/ or update their Residential Status. PAN, Category as per the IT Act with their Depository Participants ('DPs') or in case shares are held in physical form, with the RTA/ Company by sending documents on time. For the detailed process, please visit website of the Company i.e. www.clsel.in

Place: Amritsar Date: 01.09.2023

By Order of the Board For Chaman Lal Setia Exports Ltd. (RAJEEV SETIA) Joint Managing Director (DIN: 01125921)

KALYAN CAPITALS LIMITED

(formerly known as AKASHDEEP METAL INDUSTRIES LIMITED) CIN: L28998DL1983PLC017150

Registered Office: P3-203, Central Square Bara Hindu Rao, Delhi Sadar Bazar, Delhi-110006 Tel: +91-8860001105, Website: www.akashdeepmetal.in, Email: info.akashdeep14@gmail.com NOTICE of 39" ANNUAL GENERAL MEETING

In compliance with applicable provisions of the Companies Act, 2013 ('Act') and rules made thereunder, Securities and Exchange Board of India ("SEBI") (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with Circular No. 10/2022 dated December 28, 2022 read with Circular No. 14/2020 dated April 08, 2020, Circular No. 17/2020 dated April 13, 2020, Circular No. 20/2020 dated May (05, 2020 and Circular No. 02/2022 dated May 05, 2022 (collectively referred as "MCA Circulars") and SEBI Circular No. SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 dated January 5, 2023 and SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 dated May 13, 2022 ('SEBI Circulars') (MCA Circulars and SEBI Circulars collectively referred as 'Circulars'), NOTICE is hereby given that the Thirty Ninth (39") Annual General Meeting ('AGM') of the Members of Kalyan Capitals Limited (formerly known as Akashdeep Metal Industries Limited) ('Company') will be held on Tuesday, September 26", 2023 at 3:00 p.m. (IST) through Video Conferencing /Other Audio Visual Means ("VC/OAVM"), without the physical presence of the Members at the AGM, to transact the business as set out in the Notice convening the 39" AGM ("AGM Notice'). Members attending the AGM through VC/OAVM shall be reckoned for the purpose of quorum

In compliance with the Circulars, AGM Notice along with the Annual Report for financial year 2022-23 ('Annual Report') has been sent only through electronic mode to those Members whose email ids are registered with the Company/Registrar and Transfer Agent ('RTA')/Depository Participant ('DP'). The emailing of AGM Notice to all members has been completed on September 02", 2023. The aforesaid documents are also available on the Company's website at https://www.akashdeepmetal.in/Reports/Annual%20Report%202022-23.pdf website of the Stock Exchange i.e., BSE Limited at www.bseindia.com, and on the website of National Securities Depository Limited ("NSDL") at www.evoting.nsdl.com.

Manner of registering / updating email address, mobile number and bank account mandate Members whose email ids are already registered with the Company/RTA/DP, may follow the instructions. for remote e-Voting as well as e-Voting at AGM as provided in the AGM Notice

Members who have not registered their email ids, are requested to register the same for receiving all communications including Annual Report, Notices etc. from the Company electronically as per process

Members holding equity shares of the Company in physical form may register/update the details in prescribed Form ISR-1 and other relevant Forms with Company's RTA, Indus Portfolio Private Limited at rs. kushwaha@indusinvest.com.

Members holding equity shares of the Company in demat form are requested to approach their respective DP and follow the process advised by DP.

Instructions for remote E-voting and E-voting during AGM

In compliance with provisions of Section 108 of the Act read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, Secretarial Standards on General Meetings issued by the Institute of Company Secretaries of India and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ('Listing Regulations'), as amended, read with MCA Circulars, the Members will be provided with the facility to cast their vote electronically, through the remote e-Voting facility (prior the AGM) and e-Voting facility (during the AGM), on all the resolutions set forth in AGM Notice. The facility of casting votes will be provided by NSDL. Facility for e-Voting at the AGM will be made available to those Members who are present in the AGM through VC/OAVM facility and have not cast their vote on the resolutions through remote e-Voting. The Members who have voted through remote e-Voting will be eligible to attend the AGM. However, they will not be eligible to vote at the AGM. All the Members are

The business as set forth in the 39" AGM Notice will be transacted through voting by electronic means

The voting rights of Member(s) shall be in proportion to their shares in the paid-up equity share capital of the Company as on the cut-off date i.e., Tuesday, September 19", 2023. Any person who is a member of the Company as on cut-off date is eligible to cast vote electronically through remote e-Voting or e-Voting at the AGM on all the resolutions set forth in the AGM Notice.

Any person who acquires shares of the Company and becomes member of the Company after the Company sends the AGM Notice and holding shares as on cut-off date i.e., Tuesday, September 197, 2023, may obtain the User ID and password by sending an email to evoting@nsdl.co.in or rs.kushwaha@indusinvest.com by mentioning their Folio No./DP ID and Client ID for casting their vote. However, if a person is already registered with NSDL for remote e-Voting then existing user ID and password can be used for casting the votes.

The remote e-Voting period commences at 09:00 A.M. (IST) on Saturday, September 23", 2023 and ends at 05:00 P.M. (IST) on Monday, September 25", 2023. The remote e-Voting module shall be disabled by NSDL for voting thereafter. Once the vote on a resolution is cast by the Member, the Member shall not be allowed to change it subsequently.

During this period, Members holding shares either in physical form or in dematerialized form may cast. their vote by remote e-Voting before the AGM. The Members will be provided with the facility for e-Voting at the AGM and those Members

participating at the AGM & who have not already cast their vote by remote e-Voting before the AGM, will be eligible to vote at the AGM.

they will not be eligible to vote at the AGM. Detailed process and manner of remote e-Voting, e-Voting at the AGM and instructions for attending the AGM through VC/OAVM is provided in the AGM Notice and also available on the Company's

website at https://www.akashdeepmetal.in/Reports/KCL%20Notice%20of%2039th%20AGM.pdf and on the website of NSDL at www.evoting.nsdl.com. Members may send a request to evoting@nsdl.co.in for procuring User id and password for e-Voting by providing documents as mentioned in the AGM Notice.

In case of any queries related to e-voting, please refer the Frequently Asked Questions and e-voting user manual for Shareholders available at the download section of www.evoting.nsdl.com or call on toll free no.: 022 - 48867000 and 022 - 24997000 or send a request at evoting@nsdl.co.in who will also address the grievances connected with the voting by electronic means.

The Board of Directors of the Company has appointed Mr. Sanjay Kumar, Proprietor of M/s. Kurnar

Sanjay & Co., Company Secretaries, has been appointed as scrutinizer to scrutinize the process for remote e-Voting and e-Voting at the AGM in a fair and transparent manner. The Results shall be declared within two working days of the conclusion of the AGM and the same along with the consolidated Scrutinizer's Report, shall be placed on the website of the Company at www.akashdeepmetal.in, NSDL at www.evoting.nsdl.com and shall be communicated to BSE Limited

Record Date and Book Closure The Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Wednesda

September 20th, 2023 to Tuesday, September 26", 2023 (both days inclusive) for the purpose of AGM. For Kalyan Capitals Limited Place: New Delhi Isha Agarwal



Date: 02.09.2023



Omaxe Limited

Regd. Office: 19-B, First Floor, Omaxe Celebration Mall, Sohna Road, Gurugram-122 001, (Haryana) Corp. Office: 7, LSC, Kalkaji, New Delhi- 110019 CIN: L74899HR1989PLC051918

Website: www.omaxe.com, Email: secretarial_1@omaxe.com Tel: 91-11-41893100, Fax: 91-11-41896653

NOTICE FOR REGISTRATION OF EMAIL ID FOR 34TH ANNUAL GENERAL MEETING OF THE COMPANY

Pursuant to the provisions of Companies Act, 2013 ("the Act") and Rules framed thereunder and SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations") read with relevant Circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs and also the Circulars issued by Securities and Exchange Board of India, NOTICE is hereby given that the 34th Annual General Meeting ("AGM") of the Member of Omaxe Limited ("the Company") is scheduled to be held on Friday, the 29th day of September, 2023 at 12:00 Noon (IST) through Video Conferencing ("VC")/ Other Audio Visual Means ("OAVM") facility without the physical presence of the members at the common venue to transact the Ordinary and Special Business as stated in the Notice convening the said AGM.

In compliance with the provisions of MCA Circulars bearing

Numbers 14/2020 dated April 8, 2020, 17/2020 dated April 13, 2020, 20/2020 dated May 5, 2020, 22/2020 dated June 15, 2020, 33/2020 dated September 28, 2020, 39/2020 dated December 31, 2020, 02/2021 dated January 13, 2021 10/2021 dated June 23, 2021, 20/2021 dated December 8, 2021, 21/2021 dated December 14, 2021, 02/2022 dated May 5, 2022, 03/2022 dated May 05, 2022, 10/2022 dated December 28, 2022 and 11/2022 dated December 28, 2022 & SEBI Circulars dated May 12, 2020, January 15 2021, May 13, 2022 and January 5, 2023, and such other circulars as may be issued by MCA and/ or SEBI in this regard ("MCA Circulars") & ("SEBI Circulars"), the Notice of the AGM, together with the Balance Sheet as at March 31, 2023, Statement of Profit & Loss for the year ended on that date including the Schedules thereto and reports of Board of Directors & Auditors, report on Corporate Governance, containing therein the instruction for e-voting and participation in the AGM will be sent only through electronic mode to those Members whose email IDs are available with the Company/Depositories/RTA in accordance with the aforesaid MCA circulars & SEBI circulars. The Notice of the AGM along with the Annual Report 2022-23 will also be available on the Company's website at www.omaxe.com and website of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com

The Company is providing to all its Members the facility to exercise their right to vote on the resolutions proposed to be passed at the AGM through electronic voting system prior to the AGM and during the AGM. The Company has availed the remote e-voting, e-voting as well as VC/OAVM services from M/s. Link Intime India Private Limited, Registrars and Share Transfer Agent ("RTA") of the Company. The details of AGM & e-voting shall be shared in due course.

Members who have not registered their email ID with the

depository participants, are requested to register their email ID with their depository participants in respect of shares held in electronic form and members who hold shares in physical form. are requested to submit their request with their valid email ID to our RTA at delhi@linkintime.co.in or the Company at investors@omaxe.com along with signed scanned copy of the request letter providing the email address, mobile number, self-attested PAN copy and copy of share certificate and may contact the RTA through Telephone at 011-4941 1000 for any query in this regard.

Depository Participant in case share(s) held in electronic mode or by contacting our RTA i.e. M/s. Link Intime India Private Limited Hence, you are once again requested register/update/validate your email id with the Depository

Those members who have registered their e-mail address, mobile

number, postal address, and bank account details are requested

to validate/ update their registered details by contacting their

Place: New Delhi

Participant/RTA of the Company.

Date: September 02, 2023

For Omaxe Limited Sd/-Vikas Khandelwal **Company Secretary** M. No.: A18475

By order of the Board

SUPRANEET FINANCE AND CONSULTANTS LIMITED CIN: L65921DL1989PLC035261

Regd. Office: C-55/2, Wazirpur Industrial Area, Delhi-110 052 **Phone:** 011-42952500, **Fax:** 011-42952555, E-Mail: info@sfclindia.com, Website: www.sfclindia.com

NOTICE OF 34TH ANNUAL GENERAL MEETING, CUT-OFF DATE,

Notice is hereby given that the 34th ANNUAL GENERAL MEETING of the members of the SUPRANEET FINANCE AND CONSULTANTS LIMITED will be held on Thursday. the 28th September, 2023 at 3:30 p.m. through Video Conference ("VC")/Other Audio Visual Means ("OAVM") facility in compliance with applicable provisions of the Companies Act, 2013 and rules framed thereunder and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015 read with General Circular Nos. 14/2020 17/2020 and 20/2020 dated 8thApril, 2020, 13thApril, 2020 and 5th May, 2020 respectively issued by Ministry of Corporate Affairs ("MCA Circular/s") and Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated May 12, 2020 ("said SEBI Circular") issued by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI Circular"), without physical

VOTING THROUGH ELECTRONIC MEANS, BOOK CLOSURE ETC.

Pursuant to Section 108 of the Act read with Rule 20 of the Companies (Management & Administration) Rules, 2014, and Regulation 44 of the Listing Regulations, the Company has engaged National Securities Depository Limited (NSDL) as an authorized agency to provide E-voting Facility and the Company is pleased to provide to the members the facility to exercise their right to vote by electronic means in respect of the business placed at the 34th Annual General Meeting through e-voting as well as the remote e-voting during the AGM through VC/ OAVM. Annual Report for the Financial Year 2022-23 have been sent to all members through

e- mail, whose e-mail ids are registered with Registrar & Transfer Agent/ Depository

Participants. For Members, who have not registered their email address with the

presence of the Members at a common venue.

Company/Depository can obtain Notice of 34th AGM, Annual Report and/or login details for joining the 34th AGM the VC/ OAVM facility including E-voting, by sending email to nfo@sfclindia.com or rta@alankit.com. The service of aforesaid documents will be completed on 4th September, 2023. Annual Report 2022-23 including the Notice of the 34th AGM is being mailed to all the members, whose names appear in the Register of Members/list of beneficial owners as furnished by the Depositories as at the close of business hours on Friday, the 25th August, 2023. Annual Report 2022-23 including the Notice of the 34th AGM of the Company detailing inter-alia the process and the manner of e-voting, is also available on

the Company's website www.sfclindia.com and may be accessed or downloaded there-from. The members may register their request for any other communication or grievance on the Company's e-mail ID info@sfclindia.com or write to Company at its registered address. The Notice of the 34th AGM and the Annual report will also be available on the website of the Company i.e. www.sfclindia.com and the website of the Metropolitan Stock Exchange of India Limited i.e. www.msei.in The e-voting period commences on 25th September, 2023 at 9:00 a.m. and ends on 27th September 2023 at 5:00 p.m. the remote e-voting disabled by NSDL for voting

thereafter. The E-voting facility is available at the link https://www.evoting.nsdl.com The members participate in the 34th AGM, through VC/OAVM facility who have not cast their vote through e-voting, they can cast their vote through remote e-voting system during the 34th AGM. The members who have cast their vote prior to the 34th AGM through e-voting

shall not be entitled to cast their votes again. Members can join and participate in the 34th AGM through VC/OAVM facility only. The instruction for joining the 34th AGM and the manner of participation in the remote electronic voting or casting vote through e-voting system during 34th AGM are provided in the Notice of the 34th AGM. Members participating through the VC/ OAVM facility shall be counted for the purpose of reckoning the quorum under the section 103 of the Companies

may also participate in the 34th AGM through VC/OAVM facility. However, such members

Members who would like to express their views/ask questions as a **speaker** at the Meeting may pre-register themselves by sending a request from their registered e-mail address mentioning their names, DP ID and Client ID/folio number, PAN and mobile number at info@sfclindia.combetween 22[™] September, 2023 (9:00 A.M. IST) to 26[™] September, 2023 (5:00 P.M. IST). Only those Members who have pre-registered themselves as a speake will be allowed to express their views/ask questions during the AGM. Members holding shares in Physical form who have not registered their email address

with the Company/Depository can obtain Notice of 34th AGM, Annual Report and/or login details for joining the 34th AGM the VC/ OAVM facility including E-voting, by sending scanned copy of the documents by email to info@sfclindia.com or rta@alankit.com:

a. A signed request letter mentioning your name, folio number and complete address. b. Self-attested scanned copy of PAN CARD; and

c. Self-attested scanned copy of any document (such as AADHAAR Card, Driving Licence, Election identity Card, Passport) in support of the address of the Member as

registered with the Company Members holding shares in demat Form are requested to update their email address with their Depository.

The voting rights of members shall be in proportion to their shares of the paid up equity share capital of the Company as on the cut-off date of 21st September, 2023. Any person

who acquires shares of the Company and become member of the Company after dispatch of the notice and holding shares as of the cut-off date i.e. 21st September, 2023, may obtain the login ID and password by sending a request at evoting@nsdl.co.in In case of any gueries, you may refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) for members and e-voting user manual for members available at the Downloads sections

of https://www.evoting.nsdl.com or contact NSDL at the following toll free no.: 1800-222-990. Members may also write to the Company Secretary at info@sfclindia.com The Board of Directors of the Company has appointed Mr. Harvinder Singh, Proprietor of Harvinder singh & Associates, Company Secretaries, as the Scrutinizer for conducting the remote e-voting process as well as the Poll at the annual general meeting in a fair and transparent manner. The results of voting shall be declared not later than 48 hours of conclusion of the meeting and the same shall be notified to the Stock Exchange and shall be uploaded on the website of the Company. The Register of members and shares transfer book shall remain closed from Friday,

22nd day of September, 2023 to Thursday, 28th day of September, 2023 (both days inclusive) for the purpose of the AGM.

For Supraneet Finance and Consultants Limited Deepti Jain

Place: Delhi Date: 02nd September, 2023

Company Secretary

get the inside information and get inside the information. Inform your opinion with investigative journalism. Public at large is informed that the secured property(ies) as mentioned in the Schedule are available for sale through Private Treaty, as per the terms agreeable to the Company's dues on "AS IS WHERE IS BASIS" and "AS IS WHAT IS BASIS".

(B)

homefirst Home First Finance Company India Limited CIN: L65990MH2010PLC240703,

Website: homefirstindia.com Phone No.: 180030008425 Email ID: loanfirst@homefirstindia.com

NOTICE OF SALE THROUGH PRIVATE TREATY

Sale of Secured assets under Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 – (Notice Under Rule 8 (6)) The undersigned as Authorized Officer of Home First Finance Company India Limited (Home First) has taken over possession of the schedules property, in terms of section 13(4) of the subject act in connection with outstanding dues payable by you to us. Please refer our Notice dated mentioned below, wherein we informed that we have published Auction Notice in the newspaper mentioned by fixing the Reserve Price as mentioned. The Auction was scheduled on the date as mentioned. The Auction could not be successful due to lack of any bidder.

Hence, in terms of the provisions of the subject Act and Rules made thereunder, we issue this notice to you to enable you to discharge the amount due to the Company within 15 days from the date of this notice and take back the assets mentioned in the schedule, failing which the assets will be sold to discharge the liabilities. This is without prejudice to any other rights available to the Company under the subject Act or any other law in force.

The interested parties may contact the Authorized Officer for further details/ clarifications and for submitting their offers. Sale shall be in accordance with the provisions of SARFAESI Act / Rules. S. Name of the Assesset Details of property/ owner of the property

No.	Guarantors Guarantors	Details of property/ owner of the property	as on Demand Notice (in INR)	Sale Notice	Newspaper	e-Auction	Price (in INR)	Authorised Officer			
1.	Upendra Singh Rajawat, ashendra singh rajawat, Guddi kanwar,	House-348, rajawat priya vihar at govindpura niwaru link road, kalwar road, jaipur Rajasthan 302012	16,94,013	01-08-2023	Business Standard (English + Hindi)	01-09-2023	26,01,300	8949562994			
2.	Jai Singh, pooja singh	Flat-122,Block/Building-C, Unit noF-302 sonu apartment-22 C-122 Royal city at kalwar road, machwa Royal city at kalwar road, machwa jaipur Rajasthan 302012	11,70,825	01-08-2023	Business Standard (English + Hindi)	01-09-2023	13,65,000	8949562994			
	CTATISTORY AT DAILS OF THE CAMPACTURE AND										

STATUTORY 15 DAYS SALE NOTICE UNDER THE SARFAESI ACT, 2002

The borrower/ guarantors are hereby notified to pay the sum as mentioned in the demand notice along with upto date interest and ancillary expenses before 15 days from the date of this notice, failing which the property will be auctioned/ sold and balance dues, if any, will be recovered with interest and cost.

(C)

Company Secretary

Date:03/09/2023 Place: Jaipur

Signed by Authorized Officer, Home First Finance Company India Limited

HDFC BANK

(A)

HDFC Bank Limited

The Capital Court, Munirka, Outer Ring Road, Olof Palme Marg, New Delhi-110067, Tel: 011-41596676/568, CIN L65920MH1994PLC080618, Website: www.hdfcbank.com

E-AUCTION SALE NOTICE (Sale through e-bidding only)

Tender Sale Notice for Sale of Immovable Assets under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 read with proviso to Rule 8 (6) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 Notice is hereby given to the public in general and in particular to the Borrower (s) and Guarantor (s) indicated in Column (C) mortgaged/charged to the Secured Creditor, the constructive / physical possession of which has been taken

(D)

as described in column (D) by the Authorised Officer of HDFC Bank Limited (erstwhile HDFC Limited by virtue of a Scheme of Amalgamation approved by Hon'ble NCLT-Mumbai vide order dated 17th March 2023) (HDFC) Secured Creditor, will be sold on "As is where is", "As is what is", and "Whatever there is" as per the details mentioned below: Notice is hereby given to Borrower / Mortgagor(s) / legal heirs, legal representatives (whether known or unknown), executor(s), administrator(s), successor(s) and assign(s) of the respective Borrower(s) / Mortgagor(s) / legal heirs, legal representatives (whether known or unknown), executor(s), administrator(s), successor(s) and assign(s) of the respective Borrower(s) / Mortgagor(s) / legal heirs, legal representatives (whether known or unknown), executor(s), administrator(s), administrator(s)

Interest (Enforcement) Rules 2002. For detailed terms and conditions of the sale, please refer to the link provided in HDFC Secured Creditor's website i.e. www.HDFCBANK.Com

Name/s of Borrower(s)/Mortgager(s)/ Guarantor(s)/ Legal Heirs and Legal Representatives (whether known or unknown) Executor(s), Administrator(s), Successor(s) and Assign(s) of the respective Borrower(s) / Mortgagor(s) / Guarantor(s) (since deceased), as the case may be.	to be recovered	Description of the Immovable Property / Secured Asset	TYPE OF POSSESSION	DATE & TIME OF INSPECTION	Reserve Price (Rs.)	Last date of submission of bids	Earnest money deposit	Bid Incremental Rate	Date of Auction and time
MR VEENU KUMAR & MRS. BABITA	Five Lakh Seventy Nine	[1] [1] [1] [2] [3] [3] [3] [4] [4] [4] [4] [4] [4] [4] [4] [4] [4	POSSESSION	06 SEP 2023 FROM 11 AM TO 3 PM		18 SEP 2023 BY 4 PM	10% of the Bid Amount	Rs. 10,000/- (Rupees Ten Thousand Only)	20 SEP 2023 FROM 12 NOON TO 12.30 PM

*together with further interest @ 18% p.a. as applicable, incidental expenses, costs, charges etc. incurred up to the date of payment and / or realisation thereof In respect of the property at Serial No 1 the outstanding Builder/Society or any other statutory/electricity/water/property tax/other dues etc. has to be cleared/ paid by the successful

purchasers/bidders and HDFC Bank Ltd will not be liable to make any payment whatsoever. In respect of the property at Serial No 1 it will be sole responsibility of the successful purchasers/bidders to get the aforementioned property registered / transferred in their favor from the relevant appropriate authority and HDFC will not be liable for the same.

Matex Net Pvt Ltd would be assisting the Authorized Officer in conducting the auction through an e-bidding process. For any assistance related to inspection of the property, or for obtaining the Bid document and for any other queries, please get in touch with Matex Net Pvt Ltd, Mr. Vikas Kumar - 9650387768, Mr. Vijay -7200538774, Email : raju.s@matexnet.com or visit their website at https://assets.matexauctions.com/ or Mr. Aju Ashok No. Authorised Officer, HDFC Bank Ltd. (Mobile No. 9971380421) or Mr. Naman Jain (Mobile No. 7300816823). . The Bid Document can be collected / obtained from the Authorized Officer of HDFC Bank Ltd having his office at 2ND FLOOR. THE CAPITAL COURT, MUNIRKA, OLOF PALME MARG, OUTER RING ROAD, NEW DELHI-110067 or directly from M/s Matex Net Pvt Ltd. No: 37/22. Chamiers Towers, 6th floor.

The secured asset is being sold on "AS IS WHERE IS" and "AS IS WHAT IS" basis. To the best of knowledge and information of the Authorized Officer of HDFC, there are no encumbrances in respect of the above immovable properties / Secured Assets. The sale is subject to terms and conditions. Prospective purchasers can approach HDFC's office located at 2ND FLOOR, THE CAPITAL COURT, MUNIRKA, OLOF PALME MARG, OUTER RING ROAD, NEW DELHI-110067 for detailed terms and conditions.

Date: 02-SEP-2023

Sd/-**Authorised Officer**

(J)

Chamiers Road, Teynampet, Chennai - 600018

Regd. Office: HDFC Bank House, Senapati Bapat Marg, Lower Parel (West), Mumbai - 400013

(E)

(F)

(G)

(H)

(1)

🐠 🔤 एयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक लिमिटेड (ए शेड्यल्ड कमर्शियल बैंक)

रजिस्टर्ड ऑफिस: 19-A, धुलेश्वर गार्डन, अजमेर रोड, जयपुर-302001 (CIN:L36911RJ1996PLC011381

परिशिष्ट 🛮 (देखें नियम ८ (१) कब्जा सूचना) जबिक, अधोहस्ताक्षरकर्ता एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड (ए शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक) का प्राधिकत अधिकारी होते हुए "वित्तीय आस्तियों का प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभृति हित प्रवर्तन [अधिनियम 2002 (2002 के नियम 54)]" और प्रतिभृतिहित (प्रवर्तन) नियम 13 (12) का संपठित नियमों के नियम (3) के तहत प्रदत्त शक्तियों के अनुप्रयोग में मांग सचना दिनांक 12 जनवरी 2023 को निर्गमित की जिसमें माँग करते हुए ऋणी आकाश (ऋणी), सुभाष चन्देर (सह-ऋणी), श्रीमती पुजा (सह-ऋणी), (खाता संख्या: L9001060126256844) से नोटिस में वर्णित रूपये 1321024/- (अक्षरे तेरह लाख इक्कीस हजार चौबीस मात्र) की राशि इस नोटिस कि प्राप्ति कि दिनांक से 60 दिनों के भीतर चकाने के लिये कहा गया था।

ऋणी/बन्धकर्ता के वह राज़ि लौटाने में विफल होने पर ऋणी/बन्धकर्ता को तथा समान्यजन को एतद् द्वारा सचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) तथा सपठित प्रतिभृतिहित प्रवर्तन नियम, 2002 के नियम 8 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अनुप्रयोग में एतस्मिन नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा दिनांक 31 माह अगस्त वर्ष 2023 को अधिग्रहण कर लिया है।

ऋणी/सह-ऋणी/बन्धकर्ता को विशिष्टतया और सर्वसाधारण को सामान्यतया एतद द्वारा सम्पत्ति के साध व्यवहार नहीं करने की खेतावनी दी जाती है और सम्पत्ति के साध कोई व्यवहार रूपये 1321024/-(अक्षरे तेरह लाख इक्कीस हजार चौबीस मात्र) की राशि दिनांक 10 जनवरी 2023 तक तथा आगे का ब्याज एवं कल भगतान होने तक की राशि एय स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड (ए श्रेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक) के प्रभार के अधीन होगा।

ऋणियों का ध्यान प्रतिभृत आस्तियों के मोचन के लिये उपलब्ध समय के सन्दर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के उपबंधों की ओर आकृष्ट किया जाता है।

स्थावर सम्पत्ति का विवरण

सम्पति के सभी अभिन्न अंग रिहायशी /गैररिहायशी भूमि, बिल्डिंग, स्ट्रक्चर, एवं फिक्चर सम्पत्ति स्थित आवासी सम्पत्ति नं. डब्ल्युजेड-IIIA/12, प्लॉट नं. 12/1, तीसरी मंजिल, बिना छत अधिकार सहित पीछे का पोर्शन, केएच नं. 20/22, गांव-ख्याला कॉलोनी विष्णु गार्डन के रूप में ज्ञात, एक्सटें. नं. 03, नई दिल्ली, क्षेत्रफल 37.5 वर्ग गज, जो कि श्रीमती पूजा के स्वामित्व में

पश्चिम :हिस्सा सम्पति नं. डब्ल्युजेड-IIIA/12

प्राधिकृत अधिकारी एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड

सार्वजनिक नोटिस

आरबीआई परिपत्र संख्या के अनुसार संयुक्त सार्वजनिक सुधना। डीएनवीआर, (पीडी) सीसी, नंबर 065/03.10.001/2015-16 दिनांक 09 जुलाई 2015 और बीआरएमपी लीजिंग एंड फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड में प्रबंधन में वदलाव और नियंत्रण में बदलाव के लिए अन्य लागु आरबीआई परिपत्र ('आरबीआई निर्देश') (सीआईएन U74899DL1995PTC072421)

पंजीकृत कार्यालय : राजधर, फ्लैट नंबर 6बी, गणपति कॉटेज 1ए, कोर्ट रोड, सिविल लाइन्स दिल्ली डीएल 110054. दुरभाष - 9871011012

मेस आईडी: brmp3574@yahoo.com यह सार्वजनिक सुचना संयक्त रूप से जारी की जा रही है:

पूर्व : गली

उत्तर:सडक

स्थान : दिल्ली

दिनांकः ३१ अमस्त २०२३

L. बीआरएमपी लीजिंग एंड काइनेंस प्राइवेट लिमिटेड पंजीकरण संख्या बी.14.02687 ('कंपनी') के प्रमाण पत्र के माध्यम से आरबीआई के साथ गैर-जमा स्वीकार करने वाली गैर-वैकिंग वितीय कंपनी के रूप में पंजीकृत है।

2. श्री राजेश कुमार पाटनी पुत्र बाबूलाल पाटनी (DIN: 00009527) और श्री बाबूलाल पाटनी पुत्र इंदर चंद पाटनी (DIN: 00101346) कंपनी के मौजूदा निर्देशक और सभी मौजूदा शेयरधारकों ('स्थानांतरक') की ओर से

3. श्री अश्विन बोरकर पुत्र फतुज्जी बोरकर (DIN: 10283987) और श्री कल्याण सरादे पुत्र लक्ष्मण सरादे (DIN: 10283116), कंपनी के प्रस्तावित निदेशक और सभी प्रस्तावित शेयरधारकों की ओर से ('नए निदेशक '/' अधिग्रहणकर्ता') अधिसचना संख्या डीएनबीआर के पैरा 5 के अनुपालन में। (पीडी) 029/सीजीएम (सीडीएस)-2015 भारतीय रिज़र्व वैंक डारा 9 जुलाई 2015 को जारी किया गया और अन्य प्रासंगिक परिपन्न, नोटिस दिया गया है कि कंपनी परिचालन क्षमता यहाने के लिए कंपनी के स्वामित्व और नियंत्रण को स्थानांतरित करने का इरादा रखती है और 1. श्री रमन रमादे और 2. श्रीमती सुषमा वर्शिकर को शेवरों की विक्री के माध्यम से विकास के अवसरों को सुविधाजनक बनाना। नियुक्त किए जाने वाले नए निदेशक श्री अधिन बोरकर (DIN: 10283987) और श्री कल्याण सरादे (DIN: 10283116) हैं, इस्तीफा देने वाले निदेशक श्री राजेश कुमार पाटनी (DIN: 00009527) और श्री वाबृलाल पाटनी (DIN: 00101346) हैं) सभी व्यवसाय, व्यवसाय वीआरएमपी लीजिंग एंड फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड का नियंत्रण और प्रवंधन करेंगे।

कंपनी ने प्रस्तावित लेनदेन के संबंध में दिनांक 23/08/2023 के पत्र के माध्यम से आरबीआई से पूर्व अनुमोदन मांगा है (i) कंपनी में कंपनी के निदेशक मंडल में अधिग्रहणकर्ता द्वारा नामित दो निदेशकों की नियक्ति शामिल है।

इस संबंध में कोई भी स्पष्टीकरण/आपरित गैर-वैंकिंग पर्ववेक्षण विभाग, भारतीय रिजर्व वैंक, 6, संसद मार्ग, दिल्ली 110001 को संबोधित किया जा सकता है या कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में निदेशक श्री राजेश कमार पाटनी को संबोधित किया जा सकता है। इस नोटिस के प्रकाशन की तारीख से 30 दिनों के भीतर इसमें रुचि की प्रकृति और आपरित के आधार बताए। यह सार्वजनिक सुचना कंपनी और उपर्यक्त अधिग्रहणकर्ताओं द्वारा संयक्त रूप से जारी की जा रही है। निम्नलिखित हारा और उसकी ओर से जारी किया गया

बीआरएमपी लीजिन एंड फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड

दिनांक: 31.08.2023

स्थानः नई दिही

राजेश कुमार पाटनी डीआईएन: 00009527

डीआईएन: 00101346

अश्विन बोरकर प्रस्तावित निदेशक डीआईएन: 10283987

प्रस्तादित निदेशक डीआईएन: 10283116

lacksquare OMAXE

पंजीकत कार्यालयः 19-बी, प्रथम तल, ओमेक्स सेलिब्रेशन मॉल, सोहना रोड, गुरूग्राम-122 001, (हरियाणा) कॉर्पोरेट कार्यालयः ७, एलएससी, कालकाजी, नई दिल्ली- 110019 सीआईएनः L74899HR1989PLC051918 वेबसाइटः www.omaxe.com, ईमेलः secretarial 1@omaxe.com

कंपनी की 34वीं वार्षिक आम बैठक के लिए

फोनः 91-11-41893100, फैक्सः 91-11-41896653

ईमेल आईडी के पंजीकरण के लिए सूचना

कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') और उसके तहत बनाए गए नियमों और कॉपोर्रेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी प्रासंगिक परिपत्रों के साथ पठित सेबी (सुचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 ('सूचीबद्धता विनियम') के प्रावधानों और साथ ही भारतीय प्रतिभृति और विनिमय बोर्ड द्वारा जारी परिपत्रों के अनुसार, नोटिस दिया जाता है कि उक्त एजीएम बुलाने के नोटिस में सामान्य और विशेष व्यवसाय को निष्पादित करने के लिए ओमेक्स लिमिटेड ('कंपनी') के सदस्य की 34वीं वार्षिक आम बैठक ('एजीएम') शुक्रवार, 29 सितंबर, 2023 दोपहर 12:00 बजे (IST) किसी कॉमन स्थान पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ('वीसी')/अन्य ऑडियो विजुअल साधन ('ओएवीएम') सुविधा के माध्यम से आयोजित की जायेगी।

एमसीए परिपत्र संख्या 14/2020 दिनांक 8 अप्रैल 2020, 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल | 2020, 20/2020 दिनांक 5 मई 2020, 22/2020 दिनांक 15 जून 2020, 33/2020 दिनांक 28 सितम्बर 2020, 39/2020 दिनांक 31 दिसम्बर 2020, 02/2021 दिनांक | 13 जनवरी 2021, 10/2021 दिनांक 23 जून 2021, 20/2021 दिनांक 8 दिसम्बर 2021, 21/2021 दिनांक 14 दिसम्बर 2021, 02/2022 दिनांक 5 मई 2022 | 03/2022 दिनांक 05 मई 2022, 10/2022 दिनांक 28 दिसंबर 2022 और 11/2022 दिनांक 28 दिसंबर 2022 और सेबी परिपत्र दिनांक 12 मई 2020, 15 जनवरी 2021 13 मई , 2022 और 5 जनवरी, 2023, और ऐसे अन्य परिपत्र जो इस संबंध में एमसीए और/या सेबी द्वारा जारी किए जा सकते हैं ('एमसीए परिपत्र') और ('सेबी परिपत्र') के प्रावधानों के अनुपालन में, एजीएम की सूचना, 31 मार्च, 2023 तक की बैलेंस शीट, उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि का विवरण, जिसमें अनुसूचियां और निदेशक मंडल और लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट, कॉपोर्रेट गवर्नेंस पर रिपोर्ट. ई-वोटिंग और एजीएम में भागीदारी के निर्देश शामिल हैं, केवल उन सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से भेजा जाएगा जिनकी ईमेल आईडी उपरोक्त एमसीए परिपत्रों और सेबी परिपत्रों के अनुसार कंपनी/डिपॉजिटरी/आरटीए के पास उपलब्ध हैं। वार्षिक रिपोर्ट 2022-23 के साथ एजीएम की सूचना कंपनी की वेबसाइट www.omaxe.com और स्टॉक एक्सचेंजों यानी बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट क्रमश www.bseindia.com तथा www.nseindia.com पर भी उपलब्ध होगी। किंपनी अपने सभी सदस्यों को एजीएम से पहले और एजीएम के दौरान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली के माध्यम से एजीएम में पारित होने वाले प्रस्तावित प्रस्तावों पर वोट देने के अपने अधिकार का प्रयोग करने की सुविधा प्रदान कर रही है। कंपनी ने मैसर्स लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, कंपनी के रजिस्टार और शेयर टांसफर एजेंट ('आरटीए') से रिमोट ई-वोटिंग, ई-वोटिंग के साथ-साथ वीसी/ओएवीएम सेवाओं का लाभ उठाया है। एजीएम और ई-वोटिंग का विवरण उचित समय पर साझा किया जाएगा।

जिन सदस्यों ने डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ अपनी ईमेल आईडी पंजीकृत नहीं की है, उनसे अनुरोध है कि वे इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखे गए शेयरों के संबंध में अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ अपनी ईमेल आईडी पंजीकृत करें और जो सदस्य भौतिक रूप में शेयर रखते हैं, उनसे अनुरोध है कि वे अपने वैध ईमेल आईडी हमारे आरटीए को delhi@linkintime.co.in पर या कंपनी को investors@omaxe.com पर ईमेल पता, मोबाइल नंबर, स्व–सत्यापित पैन कॉपी और शेयर प्रमाणपत्र की प्रति प्रदान करने वाले अनुरोध पत्र की हस्ताक्षरित स्कैन कॉपी के साथ के साथ अपना अनुरोध जमा भेजें। इस संबंध में किसी भी प्रश्न के लिए आरटीए से टेलीफोन 011-4941 1000 पर संपर्क कर सकते हैं।

जिन सदस्यों ने अपना ई-मेल पता, मोबाइल नंबर, डाक पता और बैंक खाता विवरण पंजीकृत किया है, उनसे अनुरोध है कि वे इलेक्ट्रॉनिक मोड में रखे गए शेयर के मामले में अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट से संपर्क करके या हमारे आरटीए यानी मैसर्स लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से संपर्क करके अपने पंजीकृत विवरण को सत्यापित/अपडेट करें।

इसलिए, आपसे एक बार फिर अनुरोध है कि आप कंपनी के डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट/आरटीए के साथ अपनी ईमेल आईडी को पंजीकृत/अपडेट/सत्यापित करें। बोर्ड के आदेशानुसार

स्थानः नई दिल्ली दिनांकः 02 सितंबर, 2023

ओमेक्स लिमिटेड के लिए हस्ता./-

विकास खंडेलवाल कंपनी सचिव सदस्यता नं.: ए18475

नागरिक प्रक्रिया संहिता. 1908 के आदेश V नियम 20 के साथ पठित एनसीएलटी नियमावली, 2016 के नियम 38 के अंतर्गत स्थानापन्न सेवा के द्वारा सूचना माननीय कम्पनी विधि अधिकरण, नई दिल्ली पीठ -II, नई दिल्ली के समक्ष

मै. जैम्सन लिमिटेड बनाम मै. थ्री सी यूनिवर्सल डेवलपर्स प्रा.लि. सीपी (आईबी) नं. 2582/ एनडी (2019 में 2023 के आईएन नं. 2476

1. श्री गिरीश चन्दर जोशी (प्रतिवादी सं. 1)

निलम्बित निर्देशक मै. थ्री सी युनिवर्सल डेवलपर्स प्रा.लि.

मकान सं. 286, गली नं. 8/ए, ब्लॉक-जी, रतिया मार्ग, संगम विहार, टिगरी, नई दिल्ली-110062. ईमेल: girish111joshi@gmail.com

2. श्री राजेन्द्र कुमार (प्रतिवादी सं.2)

निलम्बित निर्देशक मै. थ्री सी यनिवर्सल डेवलपर्स प्रा.लि. एवं

निर्देशक-झण्ड इस्टेट्स प्राईवेट लिमिटेड

सी-23. ग्रेटेट कैलाश एन्क्लेव- पार्ट-1. नई दिल्ली- 110017. ईमेलः Rajendra.3c2@gmail.com

3.श्री सुप्रीत सिंह सुरी (प्रतिवादी सं.3) निर्देशक-झण्डू इस्टेट्स प्राईवेट लिमिटेड 192 बी, सैनिक फार्म्स, नई दिल्ली-110062,

ईमेलः supreet.suri@yahoo.com, supreet.suri@the@the3c.in 4. श्री विदुर भारद्वाज (प्रतिवादी सं. 4)

51-बी, जीएफ, न्यू फ्रैंड्स कॉलोनी (ईस्ट) नई दिल्ली-110065.

ईमेलः vidur@the3c.in, b.vidur@gmail.com 5. श्री निर्मल सिंह (प्रतिवादी सं. 5)

एन-104, पंचशील पार्क, नई दिल्ली-110017 इमेलः nirmal@the3c.in, nsingh107@gmail.com

6. झण्डू इस्टेट प्राईवेट लिमिटेड (प्रतिवादी सं. 6) सी-23, ग्रेटर कैलाश एन्क्लेव, पार्ट-I नई दिल्ली-110048

| ईमेलः records3c.infra@gmail.com

ौंसा कि भी राकेश कुमार गुप्ता, श्रीसी यूनिवर्सल डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड के प्रस्ताव कर्मी ने आईवीसी. 2016 की धारा 66 के अंतर्गत आई. ए. के 2023 के 2476 के रूप में एक आवेदन दाखिल किया है। जैसा कि. माननीय एनसीएलटी पीठ -II, नई दिल्ली ने 8.6.2023 को ऊपर नामित सहित सभी संबंधित पार्टियों को सुचना जारी किया है, पुनः आदेश तिथि 21.8.2023 के माध्यम से माननीय एनसीएलटी, पीठ−Ⅱ, नई दिल्ली ने स्थानापन्न सेवा के द्वारा एड़ेसी को सर्व करने के लिये अद्योहस्ताक्षरी को अनुमति दी है।

ध्यान रहे कि ऊपर शीषांकित मामला माननीय राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण, पीठ-II, नई दिल्ली के समक्ष 21.9.2023 को अब सचीबद्ध किया जायेगा। आप व्यक्तिगत अथवा अपने अधिकत प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित

ध्यान रहे कि ऊपर वर्णित तिथि को आपकी उपस्थिति में चुक करने पर आवेदन की सुनवाई तथा निर्णय आपकी अनपस्थिति में की जाएगी।

तिथि : 2.9.2023 स्थान: नई दिल्ली

श्री राकेश कुमार गुप्ता थ्री सी यनिवर्सल डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड के लिये प्रस्ताव कर्मी

प्रपत्र-3 [विनियम -15(1)(क)]/16(3) देखें ऋण वसुली न्यायाधिकरण, चंडीगढ़ (डीआरटी-2)

प्रथम तल, एससीओ 33-34-35, सेक्टर-17ए, चंडीगढ़, (तृतीय और चतुर्च तल पर भी अतिरिक्त स्थान आवीटेत) वाद सं. ओए/1495/2021

अधिनियम की धारा 19 की उप-चारा (4) के साथ पठित ऋण वसुली न्यायाधिकरण (प्रक्रिया) नियमावली, 1993 के नियम 5 के उप-नियम (2क) के तहत सम्मन

Exh. No. 19929

भारतीय स्टेट बैंक

मैसर्स जी आर ट्रेडर्स एण्ड कंसल्टेंट्स

(1) मैसर्स जीआर ट्रेडर्स एंड कंसल्टेंट्स पुत्री/पली/पुत्र श्री जी एस रविचंद्रन मैसर्स जी.आर. ट्रेडर्स और कंसल्टेंट्स इसके प्रोपराईटर श्री जी.एस. रविचंद्रन, 96, रोजका मिओ औद्योगिक क्षेत्र, आईएमटी सोहना, नूंह 122107, पैन कार्ड नंबर CXZPR8976C, मोबाइल नं. 9910009934, 7011604152। और: मकान नं. 890, सेक्टर 4, गुड़गांव हरियाणा - 122001. गुड़गांव, हरियाणा, <mark>और:</mark> मकान नं. 890 सेक्टर 4 गृहगांव गृहगांव, हरियाणा

तबकि, OA/1495/2021 माननीय पीठासीन अधिकारी / रजिस्ट्रार के समक्ष 18-08-2023. को प्रस्तुत किया जबकि, यह माननीय न्यायाधिकरण रू. 24,71,168.47 के क्रण की वसुली के लिए आपके विरूद्ध दाखिल किए

गए (ओ.ए.) के संबंध में, अधिनियम की धारा 19(4) के तहत. उक्त आवेदन पर सम्मन/नीटिस जारी करने

का अनुग्रह कर रहा है। (दस्तावेजों आदि की प्रतियों के साथ आवेदन संलग्न) अधिनियम की धारा 19 की उप-धारा (4) के अनुसार आप प्रतिवादियों को निम्न निर्देश दिया जाता है:-

(i) सम्मन की तामील के तीस दिन के भीतर कारण बताएं कि प्रार्थित राहत क्यों मंजूर नहीं की जाए: (ii) मूल आवेदन के क्रमांक 3A के तहत आवेदक हारा विनिर्दिष्ट सम्पत्तियों तथा आस्तियों के अतिरिक्त सम्पत्तियों अथवा आस्तियों का विवरण, प्रस्तुत करें;

(iii) आप को, सम्पत्ति की कुर्की के लिए आवेदन की सुनवाई तथा आवेदन के निस्तारण के दौरान, प्रत्यामृत आस्तियों अथवा मूल आयेदन के क्रमांक 3A के तहत विनिर्दिष्ट सम्पत्तियों तथा आस्तियों के संबंध में संव्यवदार अथवा निपटान करने की मनाही की जाती है:

(iv) आप किसी भी आस्ति जिस पर कोई प्रतिभित्त हित सजित किया गया है तथा/अथवा मल आवेदन के क्रमांक 3A के तहत आवेदक द्वारा विनिर्दिष्ट अथवा खुलासा की गई सम्पत्तियों तथा आस्तियों का अंतरण बिक्री, पटटा अथवा अन्य प्रकार से, आपके व्यवसाय के साधारण कोर्स को छोडकर, न्यायाधिकरण की पूर्व

(v) आप व्यवसाय के साधारण कोर्स में प्रत्यामृत आस्तियों अथवा अन्य आस्तियों तथा सम्पत्तियों की विक्री से प्राप्त होने वाली राजि का हिसाब रखने तथा ऐसी बिक्री प्राप्तियां इन आस्तियों पर प्रतिभृति हित चारक वैक अथवा वित्तीय संस्थाओं में अनुरक्षित खाते में जमा करने हेत् जिम्मेदार होंगे।

आफ्को लिखित बयान दाखिल करने, उसकी प्रति आवदेक को मुहैया कराने तथा दिनांक 20/11/2023 को पूर्वा 10.30 बजे रजिस्ट्रार के समक्ष पेश हाने का भी निर्देश दिया जाता है, जिसमें असफल रहने पर आवेदन की सुनवाई और निर्णय आपको अनुपरिधति में किया जाएगा

मेरे हस्ताक्षर और इस न्यायाधिकरण की मोहर लगाकर 21/08/2023 को दिया गया।

सम्मन जारी करने हेत् अधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर

बर्विन इनवेस्टमेंट एण्ड लीजिंग लिमिटेड 607, रोहित हाउस, 3, टोलस्टॉय मार्ग, नई दिल्ली-110001 सीआईएन : L65993DL1990PLC039397

ई—मेल: secretary@bervin.com, Website: www.bervin.com 33वीं वार्षिक आम सभा तथा ई—वोटिंग की सूचना

 एतदद्वारा सचित किया जाता है कि कंपनी की 33वीं वार्षिक आम समा (एजीएम). बुधवार, 27 सितंबर, 2023 को प्रातः 9:00 बजे नंबरदार चौपाल, शीतल टेंट हाउस के पास, गली नंबर-2, कापसहेड़ा, हाई टेंशन वाली गली, दिल्ली-110037, में नोटिस में वर्णित कार्यकलापों को निष्पादन करने के लिए होगी।

. 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक रिपोर्ट (वित्तीय परिणामों, अंकेक्षकों की रिपोर्ट, निदेशकों की रिपोर्ट और एजीएम की सुचना सहित) का इलेक्ट्रॉनिक प्रेषण / भौतिक रूप से भेजने का कार्य 2 सितंबर, 2023 को पूर्ण कर लिया गया था। यह कंपनी की वेबसाइट www.bervin.com तथा नेशनल सिक्युरिटिस डिपोजिट्री लिमिटेड (एनएसडीएल) की वेबसाइट viz. https://www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध है।

कम्पनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 108 के अनुसरण कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 ("नियम") के नियम 20 तथा सेबी (सचीयन बाध्यताएं एवं प्रकटन अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के विनियम 44 के साथ पठित के अनुपालन में, कंपनी एजीएम में सदस्यों के लिए इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान करने का अधिकार प्रयोग करने के लिए सुविधा प्रदान कर रही है और कार्यकलाप एनएसडीएल द्वारा उपलब्ध रिमोट ई-वोटिंग प्लेटफार्म के माध्यम से सम्पादित किए जा सकते है। रिमोट ई-वोटिंग और मतदान के लिए सदस्यों की पात्रता का निर्धारण करने के लिए कट-ऑफ तिथि ब्घवार, 20 सितंबर, 2023 है। जो व्यक्ति इस कट-ऑफ तिथि को सदस्य नहीं है वह इस सूचना को जानकारी समझें। इलेक्ट्रॉनिक वोट देने के लिए एक युजर आईडी और पासवर्ड सभी सदस्यों को भेज दिया गया है।

रिमोट ई-वोटिंग अवधि रविवार, 24 सितंबर, 2023 (प्रात: 9:00 बजे) को आरंभ होगी और मंगलवार, 26 सितंबर, 2023 (सायं 5:00 बजे) को समाप्त होगी। उसके बाद रिमोट ई-वोटिंग मॉडयल एनएसडीएल द्वारा निष्क्रिय कर दिया जाएगा। सदस्य द्वारा एक बार वोट डालने के बाद, उसे बदलने या दुबारा वोट डालने की अनुमति नहीं होगी। ई-वोटिंग की विस्तृत प्रक्रिया / निर्देश एजीएम की सूचना में दिए गए है।

सदस्य जिसने शेयर प्राप्त किए है और सुचना के प्रेषण के बाद कंपनी के सदस्य बनें है और बुधवार, 20 सितंबर, 2023 की कट-ऑफ तिथि पर शेयर रखते हैं वे evoting@nsdl.co.in को अनुरोध भेजकर यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं । युजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त करने की विस्तृत प्रक्रिया एजीएम की सूचना में दी

गई है जो कंपनी की वेबसाइट तथा एनएसडीएल की वेबसाइट पर उपलब्ध है। हालांकि, यदि आप पहले से ही ई-वोटिंग के लिए एनएसडीएल के साथ पंजीकृत है तो आप अपना वोट देने के लिए अपने मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग कर सकते है। यदि आप अपना पास वर्ड भूल गये है, तो आप www.evoting.nsdl.com पर अपलोड भूल गया यूजर विवरण / पासवर्ड भूल गये विकल्प का उपयोग करके अपना पासवर्ड री-सेट कर सकते है या फिर टोल फ्री नंबर पर एनएसडीएल से

6. इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली या मतपत्र के माध्यम से वोट करने की सुविधा एजीएम पर भी उपलब्ध कराई जाएगी।

7. सदस्य रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट डालने के बाद भी एजीएम में

उपस्थित हो सकता है किंतु उसे एजीएम में दुबारा वोट डालने की अनुमति नहीं होगी।), जिस व्यक्ति का नाम कट—ऑफ तिथि को सदस्यों के रजिस्टर में या डिपॉजिटरी द्वारा रखे गए बेनिफिशियल ऑनर के रजिस्टर में रिकार्ड है वह रिमोट ई-वोटिंग या एजीएम में वोट डालने का हकदार होगा।

कंपनी ने निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से ई-वोटिंग की संवीक्षा के लिए श्रीमती मनीषा गुप्ता, पूर्णकालीक कार्यरत कंपनी सचिव को संवीक्षक नियुक्त किया है। उन्होंने इस नियक्ति के लिए अपनी सहमति प्रदान कर दी है।

10.किसी भी पूछताछ के लिए सदस्य www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड सेक्शन पर उपलब्ध शेयरधारकों के लिए फ्रीक्वेंटली आस्कड क्वेश्चन (एफएक्य्) तथा शेयरघारकों के लिए ई-वोटिंग यूजर मैनुअल देख सकते हैं या एनएसडीएल को 022-48867000 (टोल फ्री) पर फोन या श्री रविन्द्र दुआ प्रबंधक आरसीएमसी शेयर रजिस्ट्री प्राईवेट लिमिटेड, बी-25/1, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया फेस-II. नई दिल्ली-110020, फोन: 011-26387320-21 से प्राप्त कर सकते हैं।

कृते बर्विन इनवेस्टमें ट एण्ड लीजिंग लिमिटेड

हस्त/-स्थान: नई दिल्ली कल्पना उमाकांत दिनांक: 29 अगस्त, 2023

(कम्पनी सचिव)

गुमशुदा/अपहृत की तलाश



सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि एक महिला जिसका नाम संगीता देवी पत्नी मदन गोपाल निवासी म.नं. 162, सेक्टर-26, रोहिणी, दिल्ली है, जो कि थाना क्षेत्र के.एन.काटज् मार्ग, रोहिणी, दिल्ली से दिनांक 26.08.2023 को सुबह 9:00 बजे से लापता है। जिसका ब्यौरा इस प्रकार है उम्रः 35 वर्ष, कदः 5'2", रंगः साफ, चेहराः लम्बा, शरीरः मजबूत, जिसने चौकलेट रंग का सूट व सलवार

और सफेद रंग की चप्पल पैरों पहनी है। इस संदर्भ में डीडी नं. 59ए, दिनांक 27.08.2023 को थाना के.एन. काटजू मार्ग, दिल्ली में दर्ज है।

हर संभव कोशिश के बाद भी इस महिला का कोई सुराग नहीं मिल पाया है। अगर किसी को इस महिला के बारे में कोई जानकारी मिले तो कृपया निम्नलिखित फोन नम्बरों पर सुचित करें।

वेबसाईटः http://cbi.nic.in

ई-मेलः cic@cbi.gov.in थानाध्यक्ष थाना के.एन. काटजू मार्ग, रोहिणी, फैक्स: 011-24368639 फोन नं: 011-24368638, 24368641 दिल्ली

फोनः 011-27571162, 27571171 DP/9776/RD/2023

JAUSS POLYMERS LIMITED

CIN: L74899HR1987PLC066065 Registered Office: Plot No. 51, Roz Ka Meo Industrial Area, Sohna, Distt. Gurugram 122103 Website: www.jausspolymers.com, E-mail: response@jausspolymers.com Tele. No.: 120-7195236-239

NOTICE OF THE 36th ANNUAL GENERAL MEETING, EVOTING INFORMATION AND **BOOK CLOSURE**

NOTICE is hereby given that the 36th Annual General Meeting (AGM) of Jauss Polymers Limited will be held at 09:30 AM on Friday, 29th September, 2023 at Hakim Ji Ki Choupal, Opp. Batra Hospital, Vill. Ujina, Police Station Nuh, Sohna, Haryana-122103 to transact such business as set out in the Notice of AGM ("Notice"). Notice along with Annual Report for 2022-23 have been sent through electronic mode to all the

members whose email ids are registered with company/Depository Participants. The dispatch of Notice and Annual Report (both physical and electronic) was completed on 2nd September, 2023. Pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 read with Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 42 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Register of Members and Share Transfer Books shall remain closed from Saturday, September 23, 2023 to Friday, September 29, 2023 (both days inclusive) for the purpose of the AGM.

In compliance with Section 108 of the Companies Act, 2013 and rules made thereunder read with Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company is pleased to provide all its members holding shares either in physical or dematerialized form at the close of business hours on the cut off date i.e. Friday 22nd September, 2023, the facility to exercise their vote electronically on the business as set out in the Notice through remote e-voting system of Central Depository Services (India) Limited (CDSL). The procedure and nstructions for remote e-voting has been given under the Notice.

The members are informed that -1. The e-voting period will commence on Tuesday, 26th September, 2023 at 09:00 am and ends

on Thursday, 28th September, 2023 at 05:00 pm. The remote e-voting will be disabled by CDSL beyond the said date and time.

The cut off date determining the eligibility to vote by electronic means or at the AGM is Friday

Any person who becomes member of the Company after dispatch of the Notice and holding shares as on the cut-off date i.e. Friday 22nd September, 2023, may obtain the User Id and password by following the same instruction for remote e-voting as mentioned in the Notice. The members who cast their vote by remote e-voting may attend the meeting but shall not be

entitled to cast their vote again at the meeting. Vote once cast by the members shall not be allowed to be changed subsequently The facility for voting through polling paper shall be made available at the AGM to the members

who have not cast their vote through remote e-voting and are present at the AGM. A person, whose name is recorded in the Register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut off date i.e. Friday 22nd September, 2023 shall be entitled to avail the facility of remote e-voting/voting at the AGM

The Notice along with Annual Report is available at the Company's website viz

www.jausspolymers.com. The Notice is also available on the website of CDSL viz All grievances connected with the facility for voting by electronic means may be addressed to Mr Rakesh Dalvi, Sr. Manager, (CDSL.) Central Depository Services (India) Limited, A Wing, 25th

Place: Noida

Floor, Marathon Futurex, Mafattal Mill Compounds, N.M. Joshi Marg, Lower Parel (East), Mumbai 400013 or send an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or call on 022-23058542/43. For Jauss Polymers Limited

Ketineni Satish Rao (Managing Director) DIN: 02435513 Dated: 02nd September, 2023

सुप्रानीत फाइनेंस ऐंड कंसल्टेंट्स लिमिटेड

सीआईएन: L65921DL1989PLC035261 पंजी. कार्यालय: सी-55/2, वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया, दिल्ली-110 052

संसाधनों के माध्यमों से वोटिंग, बही समापन इत्यादि की सूचना

दुरभाष: 011-42952500, फैक्स: 011-42952555 ई-मेल: info@sfclindia.com, वेबसाइट: www.sfclindia.com 4वीं वार्षिक आम बैठक, कट—ऑफ तिथि, इलेक्ट्रॉनिक

एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि सुप्रानीत फाइनेंस एंड कंसल्टेंटस लिमिटेड के सदस्यों की 34 वार्षिक आम बैठक गुरुवार, 28 सितंबर, 2023 को अपराह्न 3.30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस (''वीसी'') / अन्य ऑडियो विजुअल संसाधनों (''ओएवीएम'') सुविधा के माध्यम से आयोजित की जाएगी, जो कि कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों और सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम 2015 जो कि कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा निर्गत सामान परिपत्र सं. क्रमशः 14 / 2020, 17 / 2020 और 20 / 2020 दिनांक 8 अप्रैल, 2020, 13 अप्रैल, 2020 और 5 मई. 2020 ("एमसीए परिपत्र") और भारतीय प्रतिभृति एवं विनिमय बोर्ड द्वारा निर्गत परिपत्र संख्या सेबी / एचओ / सीएफडी / सीएमडी 1 / सीआईआर / पी / 2020 / 79 दिनांक 12 मई, 2020 ("उक्त सेबी सर्कूलर") ("सेबी सर्कूलर") के साथ पठित है, के अनुपालन में, किसी एक सामान्य स्थान पर सदस्यों की व्यक्तिगत उपस्थिति के बिना आयोजित की जायेगी।

कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियमावली 2014 के नियम 20 और सूचीकरण विनियमावली विनियमन 44 के साथ पठित अधिनियम की धारा 108 के अनुसार, कंपनी ने ई-वोटिंग सुविधा उपलब्ध कराने के लिए एक प्राधिकृत एजेंसी के रूप में नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) को नियुक्त किया है और कंपनी 34वीं वार्षिक आम बैठक में ई-वोटिंग के साथ-साथ वीसी / ओएवीएम के माध्यम से एजीएम के दौरान रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से रखे गए व्यवसाय के संबंध में सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वोट देने के अपने अधिकार का प्रयोग करने की

वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए वार्षिक रिपोर्ट उन सभी सदस्यों को ई-मेल के माध्यम से भेज गई है, जिनकी ई-मेल आईडी रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट / डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ पंजीव त हैं। जिन सदस्यों ने अपना ईमेल पता कंपनी/डिपॉजिटरी के साथ पंजीकृत नहीं किया है, 34वीं एजीएम की सचना, वार्षिक रिपोर्ट और / या 34वीं एजीएम में शामिल होने के लिए लॉगिन विवरण, ई-वोटिंग सहित वीसी/ओएवीएम सुविधा को info@sfclindia.com य rta@alankit.com पर ईमेल भेजकर प्राप्त कर सकते हैं। उपरोक्त दस्तावेजों की सेवा 4 सितंबर, 2023 को पुरी हो जाएगी।

34वीं एजीएम की सूचना सहित वार्षिक रिपोर्ट 2022-23 उन सभी सदस्यों को मेल की जा रही है जिनके नाम डिपॉजिटरी द्वारा प्रस्तत अनसार शक्रवार. 25 अगस्त. 2023 को कारोबारी समय की समाप्ति पर सदस्यों के रजिस्टर / लाभार्थी मालिकों की सची में दिखाई देते हैं। वार्षिक रिपोर्ट 2022-23 जिसमें कंपनी की 34वीं एजीएम की सचना भी शामिल है. जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ ई-वोटिंग की प्रक्रिया और तरीके का विवरण दिया गया है, वह कंपनी की वेबसाइट www.sfclindia.com पर भी उपलब्ध है और इसे वहां से एक्सेस या डाउनलोड किया जा सकता है। सदस्यगण किसी अन्य संचार या शिकायत के लिए अपना अनुरोध कंपनी की ई–मेल आईडी info@sfclindia.com पर दर्ज कर सकते हैं या कंपनी को इसके पंजीकृत पते पर लिख सकते हैं। 34वीं एजीएम की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट अर्थात www.sfclindia.com पर और मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट अर्थात www.msei.in

पर भी उपलब्ध होगी। ई-वोटिंग अवधि 25 सितंबर, 2023 को प्रातः 9.00 बजे प्रारंभ होगी और 27 सितंबर 2023 को सायं 5.00 बजे समाप्त होगी। उसके बाद मतदान के लिए एनएसडीएल द्वारा रिमोट ई-वोटिंग अक्षम कर दी जायेगी। ई-वोटिंग सुविधा https://www.evoting.nsdl.com लिंक पर उपलब्ध है।

वे सदस्य वीसी / ओएवीएँम सुविधा के माध्यम से 34वीं एजीएम में भाग लेते हैं, जिन्होंने ई-वोटिंग के माध्यम से अपने वोट नहीं डालें है, वे 34वीं एजीएम के दौरान रिमोट ई—वोटिंग प्रणाली के माध्यम से अपने वोट डाल सकते हैं। जिन सदस्यों ने 34वीं एजीएम से पहले ई-वोटिंग के माध्यम से अपने वोट डाले हैं, वे भी वीसी/ओएवीएम सविधा के माध्यम से 34वीं एजीएम में भी भाग ले सकते हैं। हालाँकि, ऐसे सदस्य दोबारा वोट डालने के हकदार नहीं होंगे।

सदस्यगण, केवल वीसी / ओएवीएम स्विधा के माध्यम से 34वीं एजीएम में शामिल हो सकते हैं और उसमें भाग ले सकते हैं। 34वीं एजीएम में शामिल होने के निर्देश और 34वीं एजीएम के दौरान रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली में भाग लेने या ई–वोटिंग प्रणाली के माध्यम से वोट डालने के तरीके 34वीं एजीएम के नोटिस में दिए गए हैं। वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से भाग लेने वाले सदस्यों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 के तहत कोरम की गणना के उद्देश्य से गिना जाएगा। जो सदस्य बैठक में वक्ता के रूप में अपने विचार व्यक्त करना / प्रश्न पछना चाहते हैं. वे 22 सितंबर 2023 (9.00 पूर्वाह्न आईएसटी) से 26 सितंबर, 2023 (सायं 5.00 बजे आईएसटी) के बीच अपने पंजीकृत ई–मेल पते से अपने नाम, डीपी आईडी और क्लाइंट आईडी / फोलियो नंबर, पैन और मोबाइल नंबर का उल्लेख करते हुए info@sfclindia.com पर एक अनुरोध भेजकर पहले से पंजीकरण करा सकते हैं। केवल उन्हीं सदस्यों को एजीएम के दौरान अपने विचार व्यक्त करने / प्रश्न पूछने की अनुमति होगी जिन्होंने वक्ता के रूप में खुद को पूर्व-पंजीकृत किया है।

भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्य, जिन्होंने कंपनी/डिपॉजिटरी के साथ अपना ईमेल पता पंजीकृत नहीं किया है, वे निम्न दस्तावेजों की स्कैन की गई प्रति ईमेल द्वारा info@sfclindia.com अथवा rta@alankit.com पर भेजकर 34वीं एजीएम की सूचना, वार्षिक रिपोर्ट तथा/अथवा ई-वोटिंग सहित वीसी/ओएवीएम स्विधा के साथ 34वीं एजीएम में शामिल होने के लिए लॉगिन

क. आपके नाम, फोलियो नंबर और पूरे पते का उल्लेख करते हुआ एक हस्ताक्षरित अनुरोध पत्र। ख. पैन कार्ड की स्वप्रमाणित स्कैन प्रति; और

ग. कंपनी के साथ पंजीकृतानुसार सदस्य के पते के अनुसमर्थन में किसी भी दस्तावेज (जैसे आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, चुनाव पहचान पत्र, पासपोर्ट) की स्व-सत्यापित स्कैन की गई प्रति। डीमैट फॉर्म में शेयर रखने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने डिपॉजिटरी के साथ अपना ईमेल पता अपडेट करें।

सदस्यों का मतदान अधिकार 21 सितंबर, 2023 की कट—ऑफ तिथि के अनुसार कंपनी की भुगतान की गई इक्विटी शेयर पंजी के उनके शेयरों के अनुपात में होगा। कोई भी व्यक्ति, जो नोटिस भेज जाने के बाद कंपनी के अंश उपार्जित करता है तथा कंपनी का सदस्य बनता है और और कट-ऑफ तिथि यानी 21 सितंबर, 2023 तक शेयर रखतो है, तो वह evoting@nsdl.co.in पर एक अनुरोध भेजकर लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। किसी भी प्रश्न की स्थिति में आप https://www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड अनुभाग पर

उपलब्ध सदस्यों के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) तथा सदस्यों के लिए ई–वोटिंग उपयोगकर्ता मैनुअल देखें या निम्नलिखित टोल फ्री नंबर 1800—222—990 पर एनएसडीएल से संपर्क करें। सदस्यगण, कंपनी सचिव को info@sfclindia.com पर भी लिख सकते हैं। कंपनी के निदेशक मंडल ने रिमोट ई-वोटिंग मतदान प्रक्रिया के साथ-साथ वार्षिक आम बैठक में निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से मतदान के संचालन के लिए कंपनी सचिव, हरविंदर सिंह एंड

के समापन के 48 घंटे के भीतर घोषित किए जाएंगे और इसे स्टॉक एक्सचेंज को सूचित किया जाएगा और कंपनी की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। सदस्यों का रजिस्टर और शेयर ट्रांसफर बुक शुक्रवार, 22 सितंबर, 2023 से गुरुवार, 28 सितंबर, 2023 (दोनों दिन सम्मिलित) तक एजीएम के प्रयोजन के लिए बंद रहेंगी। कृते सुप्रानीत फाइनेंस एंड कंसल्टेंट्स लिमिटेड

एसोसिएट्स के मालिक श्री हरविंदर सिंह को संवीक्षक नियुक्त किया है। मतदान के परिणाम बैठक

स्थान : दिल्ली

दिनांक : 02 सितंबर 2023

दीप्ति जैन कंपनी सचिव

कल्याण कैपिटल्स लिमिटेड

(पूर्व की आकाशदीप मेटल इंडस्ट्रीज लिमिटेड) सीआईएन: L28998DL1983PLC017150

पंजीकृत कार्यालयः पी3-203, सेंट्रल स्क्वायर बाड़ा हिंदू राव, दिल्ली सदर बाजार, दिल्ली-110006 टेलीफोन: +91-8860001105, वेबसाइट: www.akashdeepmetal.in, ईमेलः info.akashdeep14@gmail.com

39वीं वार्षिक आम बैठक की सचना कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') और उसके तहत बनाए गए नियमों के लागू प्रावधानों, परिपत्र संख्या 10/2022 वे

साथ पढें दिनांक 28 दिसंबर 2022 को परिपत्र संख्या 14/2020 दिनांक 08 अप्रैल 2020, परिपत्र संख्या 17/2020 दिनांव 13 अप्रैल 2020, परिपत्र संख्या 20/2020 दिनांक 05 मई 2020 और परिपत्र संख्या 02/2022 दिनांक 05 मई, 202 (सामृहिक रूप से 'एमसीए परिपत्र' के रूप में संदर्भित) के साथ पठित भारतीय प्रतिभृति और विनिमय बोर्ड ('सेबी' (सचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 और सेबी परिपत्र संख्या SEBI/HO/CFD PoD-2/P/CIR/2023/4 दिनांक 5 जनवरी, 2023 और SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 दिनांक मई, 2022 ('सेबी परिपत्र') (एमसीए परिपत्र और सेबी परिपत्र को सामृहिक रूप से 'परिपत्र' सन्दर्भित) के अनुपालन एतदुद्वारा नोटिस दिया जाता है कि 39वीं एजीएम ('एजीएम नोटिस') के आयोजन के नोटिस में निर्धारित अनुसार व्यवसा निष्पादित करने के लिए कल्याण कैपिटल्स लिमिटेड (पूर्व की आकाशदीप मेटल इंडस्ट्रीज लिमिटेड) ('कंपनी') के सदस्य की उनतालीसवीं (39वीं) वार्षिक आम बैठक ('एजीएम') बैठक मंगलवार, 26 सितंबर, 2023 को दोपहर 3:00 बर्ज (भा.मा.स.) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग/अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों ('वीसी/ओएवीएम') के माध्यम से एजीएम में सदस्यों कं भौतिक उपस्थिति के बिना आयोजित की जाएगी। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने वाले सदस्यों कं

/डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट('डीपी') के साथ पंजीकृत हैं। सभी सदस्यों को एजीएम नोटिस ईमेल करने का काम 02 सितंबर 2023 को पूरा हो चुका है। उपरोक्त दस्तावेज कंपनी की वेबसाइट https://www.akashdeepmetal.in/Reports/Annual%20Report%202022-23.pdf, स्टॉक एक्सचेंज यार्न बीएसई लिमिटेड की वेबसाइंट www.bseindia.com और नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड ('एनएसडीएल' की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध हैं।

से ही कंपनी/आरटीए/डीपी के साथ पंजीकृत हैं, वे रिमोट ई-वोटिंग के साथ-साथ एजीएम में ई-वोटिंग के लिए एजीएम नोटिर में दिए गए निर्देशों का पालन कर सकते हैं।

जिन सदस्यों ने अपनी ईमेल आईडी पंजीकृत नहीं की है, उनसे अनुरोध है कि वे कंपनी से वार्षिक रिपोर्ट, नोटिस आदि सहित सभी संचार इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्राप्त करने के लिए नीचे उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार इसे पंजीकृत करें: • कंपनी के इक्विटी शेयर भौतिक रूप में रखने वाले सदस्य कंपनी के आरटीए, इंडस पोर्टफोलियो प्राइवेट लिमिटेड के साथ

कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 के साथ पठित अधिनियम की धारा 108 के प्रावधानों, भारतीय कंपनी सचिवों के संस्थान द्वारा जारी सामान्य बैठकों पर सचिवीय मानक और एमसीए परिपत्रों के साथ पठित यथासंशोधिर सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियमन 44 ('सूचीबद्धता विनियम') वे अनपालन में, एजीएम नोटिस में निर्धारित सभी प्रस्तावों पर सदस्यों को रिमोट ई-वोटिंग सविधा (एजीएम से पहले) और ई वोटेंग सुविधा (एजीएम के दौरान) के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डालने की सुविधा प्रदान की जाएगी। वोर डालने की सविधा एनएसडीएल द्वारा प्रदान की जाएगी। एजीएम में ई–वोटिंग की सविधा उन सदस्यों को उपलब्ध कराई जाएगी जो वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से एजीएम में उपस्थित हैं और उन्होंने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से प्रस्तावों पर अपन वोट नहीं डाला है। जिन सदस्यों ने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान किया है वे एजीएम में भाग लेने के पात्र होंगे हालाँकि, वे एजीएम में वोट देने के पात्र नहीं होंगे। सभी सदस्यों को सचित किया जाता है किः

. सदस्यों के मतदान अधिकार कट-ऑफ तिथि यानी, मंगलवार, 19 सितंबर, 2023 को कंपनी की चुकता इक्विटी शेय पंजी में उनके शेयरों के अनपात में होंगे। कोई भी व्यक्ति जो कट-ऑफ तिथि पर कंपनी का सदस्य है, एजीएम नोटिस

निर्धारित सभी प्रस्तावों पर एजीएम में रिमोट ई-वोटिंग अयस्क-वोटिंग के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से वोट डालने वे . कोई भी व्यक्ति जो कंपनी के शेयर प्राप्त करता है और कंपनी द्वारा एजीएम नोटिस भेजने के बाद कंपनी का सदस्य ब

अपने फोलियो नंबर/डीपी आईडी और क्लाइंट आईडी का उल्लेख करते हुए evoting@nsdl.co.in य rs.kushwaha@indusinvest.com पर ईमेल भेजकर यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। हालाँकि, यवि कोई व्यक्ति रिमोट ई-वोटिंग के लिए पहले से ही एनएसडीएल के साथ पंजीकृत है तो वोट डालने के लिए मौजूदा यूज आईडी और पासवर्ड का उपयोग किया जा सकता है। . रिमोट ई-वोटिंग अवधि शनिवार, 23 सितंबर, 2023 को सुबह 09:00 बजे (भा.मा.स.) शुरू होगी और सोमवार, 29

सितंबर, 2023 को शाम 05:00 बजे (भा.मा.स.) समाप्त होगी। उसके बाद मतदान के लिए एनएसडीएल द्वारा रिमोट ई-वोटिंग मॉडयल अक्षम कर दिया जाएगा। एक बार सदस्य द्वारा किसी प्रस्ताव पर वोट डालने के बाद, सदस्य को बाद इसे बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। . इस अवधि के दौरान, भौतिक रूप में या डीमटेरियलाइज्ड रूप में शेयर रखने वाले सदस्य एजीएम से पहले रिमोट ई-

से पहले रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट नहीं डाला है, वे एजीएम में वोट करने के पात्र होंगे। . जिन सदस्यों ने रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से मतदान किया है वे एजीएम में भाग लेने के पात्र होंगे। हालाँकि, वे एजीए में वोट देने के पात्र नहीं होंगे।

एनएसडीएल की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध हैं। . सदस्य एजीएम नोटिस में उल्लिखित दस्तावेज प्रदान करके ई-वोटिंग के लिए यजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त करने हं लिए evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेज सकते हैं।

022-48867000 और 022-24997000 पर कॉल करें या evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेजें जो इलेक्ट्रॉनिक माध्य से मतदान से जड़ी शिकायतों का समाधान भी करेगा। 11. कंपनी के निदेशक मंडल ने मैसर्स कुमार संजय एंड कंपनी, कंपनी सचिव के प्रोपराइटर श्री संजय कुमार को रिमोट ई वोटिंग और एजीएम में ई–वोटिंग की प्रक्रिया की निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से जांच करने के लिए जांचकर्ता के रूप में नियर

12. परिणाम एजीएम के समापन के दो कार्य दिवसों के भीतर घोषित किए जाएंगे और इसे, समेकित स्क्रटिनाइजर की रिपोर्ट के साथ, कंपनी की वेबसाइट www.akashdeepmetal.in, एनएसडीएल की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com प रखा जाएगा और बीएसई लिमिटेड को www.bseindia.com पर सूचित किया जाएगा।

एजीएम के उद्देश्य से कंपनी के सदस्यों का रजिस्टर और शेयर ट्रांसफर बुक बुधवार, 20 सितंबर, 2023 से मंगलवार, 2

स्थानः नई दिल्ली







financialexpress.com

अधिनियम की धारा 103 के तहत कोरम के प्रयोजन के लिए गिना जाएगा। परिपत्रों के अनुपालन में, वित्त वर्ष 2022-23 की वार्षिक रिपोर्ट ('वार्षिक रिपोर्ट') के साथ एजीएम नोटिस केवल उन सदस्यं

को इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से भेजा गया है जिनकी ईमेल आईडी कंपनी/रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट ('आरटीए')

इंमेल पता, मोबाइल नंबर और बैंक खाता आदेश को पंजीकृत/अद्यतन करने का तरीका : जिन सदस्यों की ईंमेल आईडी पहले

rs.kushwaha@indusinvest.com पर निर्धारित फॉर्म आईएसआर-1 और अन्य प्रासंगिक फॉर्म में विवरण

डीमैंट फॉर्म में कंपनी के इक्विटी शेयर रखने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने संबंधित डीपी से संपर्क करें औ डीपी द्वारा सलाह दी गई प्रक्रिया का पालन करें।

रिमोट ई-वोटिंग और एजीएम के दौरान ई-वोटिंग के निर्देश

39वीं एजीएम के नोटिस में निर्धारित व्यवसाय को ई-वोटिंग के रूप में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वोटिंग के माध्यम से किय

जाता है और कट-ऑफ तिथि यानी, मंगलवार, 19 सितंबर, 2023 को शेयर धारण करता है, अपना वोट डालने के लि

वोटिंग द्वारा अपना वोट डाल सकते हैं। सदस्यों को एजीएम में ई-वोटिंग की सुविधा प्रदान की जाएगी और एजीएम में भाग लेने वाले वे सदस्य जिन्होंने एजी

3. रिमोट ई-वोटिंग की विस्तत प्रक्रिया और तरीका. एजीएम में ई-वोटिंग और वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भा लेने के निर्देश एजीएम नोटिस में दिए गए हैं और कंपनी की वेबसाइट https://www.akashdeepmetal.in/Reports/KCL%20Notice%20of%2039th%20AGM.pdf औ

10. ई-वोटिंग से संबंधित किसी भी प्रश्न के मामले में, कृपया www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड अनुभाग प उपलब्ध Frequently Asked Questions और e-voting user manual for Shareholders देखें या टोल फ्री नंबर

सितंबर, 2023 (दोनों दिन शामिल) तक बंद रहेंगे।

कल्याण कैपिटल्स लिमिटेड के लि



www.readwhere.com